

फ़तह



ATS VALLEY SCHOOL
EXPLORE LEARN LEAD

हिंदी की मासिक पत्रिका



(फरवरी 2022)



विज्ञान दिवस

आज विज्ञान का जादू चल रहा है,
हर कोई विज्ञान के आवरण में पल रहा है।
विज्ञान आधुनिकता को बढ़ा रहा है,
जीवन स्तर को चढ़ा रहा है। विज्ञान विकास को भी बढ़ा रहा है,
और 28 फरवरी को भारत फिर से विज्ञान दिवस मना रहा है।



ए टी एस के छात्रों के पास भी विज्ञान के ज्ञान का भंडार है,
चलिए पढ़ते हैं इस विषय में उनके क्या विचार हैं।

किसी भी देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए विज्ञान की ज़रूरत है,
विज्ञान के आविष्कार मानव जीवन को सरल बनाते हैं,
आज का विज्ञान कल की तकनीक है।

मेहुल जैन(1अ)

हर ओर विज्ञान है,
फैला उसका ज्ञान है।

पृष्ठा(2ब)

चांद और सूरज का जो दे भरपूर ज्ञान
वह है विज्ञान।

तारे क्यों है टिमटिमाते ,
अंतरिक्ष में क्या-क्या है मंडराते,
वैज्ञानिक हमें सब कुछ है बतलाते।
अंतरिक्ष का जो दिलवाए सर्वज्ञ ज्ञान,
वह ही है विज्ञान।

आकांक्षा वर्मा(8अ)



विज्ञान दिन में है रात में है,
विज्ञान दिन में है रात में है,
हर वस्तु हर बात में है।
विज्ञान बिना अब असंभव सा जीवन,
विज्ञान हर पल साथ-साथ में है।

ध्रुव चौहान(8अ)

अंधे को आँख दी,
बहरे को दिए कान।
सुख-सुविधाएं मिली बहुत,
जीवन को बना दिया आसान।
विज्ञान मानव जीवन के लिए बन गया एक वरदान।

तेजवीर(2ब)

पढ़ाई में जो डाल दे जान
वही है विज्ञान।
जिस आविष्कार ने उड़ाए विमान
वही है विज्ञान।
जिस पर आधारित हो कर उड़ सका मंगल यान।
वही है विज्ञान, वही है विज्ञान।

यशविन (2अ)

विज्ञान है चमत्कार तभी तो हमारे देश के लोगों ने किए हैं बहुत आविष्कार ।

ध्रुव गुप्ता(7अ)



विज्ञान को समझे और अपनाएं,
जीवन को सुखी और सफल बनाएं।
विज्ञान का करे हमेशा सदुपयोग,
ताकि यह अभिशाप ना बन पाए।

कीथ हुसैन(6अ)

पहले पत्र लिखकर करते थे जवाब का इंतज़ार,
अब फोन पर कर लो चाहे बातें सौ बार।
टेक्नोलॉजी बदली है, देश भी आगे बढ़ा है,
मुझ पर ही नहीं सब पर असर पड़ा है।
सबको है यह विश्वास,
विज्ञान से हो रहा विकास।

गोबिंददीप (4अ)

हर ओर विज्ञान का जादू चल रहा है,
हर कोई विज्ञान के आंचल में पल रहा है।

ज़ोहैन (3अ)

विज्ञान बहुत ज़रूरी है,
हमारी ज़रूरत और मजबूरी है।
जीवन को बनाने के लिए सरल,
विज्ञान की ताकत पूरी-पूरी है।

अनिका (4अ)

दुनिया को सर्जरी करनी सिखाई,
मंगल की झलक हमने दिखाई।
कणाद ने एटम के बारे में बताया,
विज्ञान के क्षेत्र में हमने बूस्ट है लाया।
हमारे देश के वैज्ञानिक महान,
जिन्हे जानता है सारा जहान।।

सक्षम (7अ)

विज्ञान बनाता हमें ज्ञानवान,
चाहे हो बच्चा या हो जवान ।
यह है बहुत लाभ की चीज़,
इससे न करो कोई बुरी चीज़ ।
न करो इसका गलत इस्तेमाल,
चाहे हो बच्चा या हो जवान ।

मनन (7अ)

विज्ञान का चमत्कार कुछ इस प्रकार हो रहा है,
जो ना सोचा था वह काम भी हो रहा है।
कुछ भी नहीं है असंभव,
ये हमें विज्ञान बता रहा है।

दक्ष गुलाटी (6अ)

